·	WATER WELL RECORD Form			
1 LOCATION OF WATER WELL:	Fraction	Section Number	1 44	Range Number
County: Wilson	NW ¼ SW ¼ SW		T 30 S	R 16 E
	own or city street address of well if located with 1003 Main Street, No.	eodesha, Kansas		
	s Apco, Neodesha c/o KDHE Tir	ne and Materials	}	
RR#, St. Address, Box # : 1000			Board of Agriculture, Div	ision of Water Resources
City, State, ZIP Code : Tope	ka, Ks 66612-1367		Application Number:	
3 LOCATE WELL'S LOCATON WITH	H 4	45.5		
AN "X" IN SECTION BOX:	DEPTH OF COMPLETED WELL	13.3 ft. ELE	EVATION:	
	Depth(s) Groundwater Encountered 1		ft. 2 ft.	3Ft.
N	WELL'S STATIC WATER LEVEL 11	.02 ft. below land	surface measured on mo/day	3 Ft. S /yr <b>01/09/06</b> 7
<b>†</b>	Pump test data: Well water v	vas	Ft. after hours	
NWNF	Est. Yield Gpm: Well water v	vas	Ft. after Hours	pumping Gpm   C
	Bore Hole Diameter 8.625 In. to	15.5	Ft. and i	n. to Ft.
W Wile	F WELL WATER TO BE USED AS: 5 Pu	olic water supply	8 Air conditioning 1	1 Injection well
-	Bore Hole Diameter 8.625 In. to WELL WATER TO BE USED AS: 5 Pul 1 Domestic 3 Feed lot 6 Oil	field water supply	9 Dewatering 1	2 Other (Specify below)
SWSE	2 Irrigation 4 Industrial 7 Lav	vn and garden (domest	tic) 10 Monitoring well	∕IW-6
	Was a chemical/bacteriological sample su	hmitted to Department	? Yes No X If yes	mo/day/yr sample was
<b>†</b>	Submitted		ater Well Disinfected? Yes	<b>V</b>
5 TYPE OF BLANK CASING USED:				
	· ·	8 Concrete tile		d Clamped
1 Steel 3 RMP	` '	9 Other (specify bel	'	
2 PVC 4 ABS			Thre	aded X
Blank casing diameter 2	Ft., In to <b>5.5</b> Dia	In to	ft Dia	in to
	FLUSH in., weight SC	:H 40	ft., Dia	_ III. WTL
TYPE OF SCREEN OR PERFORATION	ON MATERIAL:	7 DVO	10 Asbestos-cem	). t
	nless steel 5 Fiberglass		11 Other (specify)	
2 Brass 4 Galv SCREEN OR PERFORATION OPEN	ranized steel 6 Concrete tile INGS ARE: 5 Gauze	9 ABS	12 None used (op 8 Saw cut	11 None (open hole)
	Mill slot 6 Wire w	• • •		11 None (open noie)
			9 Drilled holes	
	Key punched 7 Torch o		10 Other (specify)	
SCREEN-PERFORATED INTERVALS		1 <b>3.3</b> ft.	From tt.	toft.
	From ft. to	ft.	From ft.	toFt.   ;
SAND PACK INTERVALS:	From 3.5 ft. to	15.5 ft.	From ft.	toFt.
	From ft. to			to Ft.
6				
GROUT MATERIAL: 1 Nea	t cement 2 Cement grout	3 Bentonite	4 Other	
Grout Intervals From3 0	Ft. to <b>1</b> From 2 <b>1</b>	Ft. to <b>3.</b>		
				ft. to ft.
What is the nearest source of possible			•	pandoned water well
1 Septic tank	4 Lateral lines 7 Pit privy		_	I well/ Gas well
2 Sewer lines	5 Cess pool 8 Sewage I	-	_	her (specify below)
3 Watertight sewer lines	6 Seepage pit 9 Feedyard		·	ontaminated Site
Direction from well?		How man	<del></del>	
FROM TO CODE	LITHOLOGIC LOG	FROM TO	PLUGGING I	NTERVALS
	sphalt and concrete			
1 13 0	lay (CL), light gray to brown			
	imestone, weathered			
15.5 TD E	nd of Borehole			
7 CONTRACTOR'S OR LANDOWN	IER'S CERTIFICATION: This water well was	(x) constructed (2) red	constructed, or (3) plugged up	der my jurisdiction and w
Completed on (mo/day/yr)	01/04/06		true to the best of my knowle	
Water Well Contractor's License No.			Record was completed on (mo	•
	Associated Environmenta			
under the business name of INSTRUCTIONS: Please fill in bla	nks and circle the correct answers. Send three co		By (signature) Bradley J	
Kansas 66620-0001. Telephone: 9	913-296-5545. Send one to WATER WELL OWN	IER and retain one for you	ur records.`	a.cad of frator, Topena,